

$$x^3 - \frac{1}{x^3} = 33 + 3 \Rightarrow 36 \quad \dots \text{(iii)} \quad [\text{समी. (ii) से मान रखने पर}]$$

समी. (i) तथा समी. (iii) से,

$$\left(x^3 - \frac{1}{x^3} \right) \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) = 11 \times 36$$

$$x^5 + x - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^5} = 396$$

$$\begin{aligned} x^5 - \frac{1}{x^5} &= 396 - \left(x - \frac{1}{x} \right) \\ &= 396 - 3 \Rightarrow 393 \end{aligned}$$

Trick-

$$\therefore x + \frac{1}{x} = \sqrt{13}$$

$$\therefore x - \frac{1}{x} = \sqrt{(\sqrt{13})^2 - 4} \\ = \sqrt{13-4}$$

$$x - \frac{1}{x} = \sqrt{9} = 3$$

$$\begin{aligned} \therefore x^5 - \frac{1}{x^5} &= \left(x^3 - \frac{1}{x^3} \right) \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) - \left(x - \frac{1}{x} \right) \\ &= [(3)^3 + 3 \times 3] [(\sqrt{13})^2 - 2] - 3 \\ &= 36 \times 11 - 3 \\ &= 396 - 3 \\ &= 393 \end{aligned}$$

नोट (i) यदि $x + \frac{1}{x} = a$

$$\text{तब } x - \frac{1}{x} = \sqrt{a^2 - 4}$$

(ii) यदि $x - \frac{1}{x} = a$

$$\text{तब } x^3 - \frac{1}{x^3} = a^3 + 3a$$

(iii) यदि $x + \frac{1}{x} = a$ तब $x^2 + \frac{1}{x^2} = a^2 - 2$

3. यदि $x^2 + \left(\frac{1}{x^2} \right) = \frac{31}{9}$ तथा $x > 0$, तो $x^3 + \left(\frac{1}{x^3} \right)$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{70}{9}$

(b) $\frac{154}{27}$

(c) $\frac{349}{27}$

(d) $\frac{349}{7}$

S.S.C. ऑफिसल इन स्नातक स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (II-पार्टी)

उत्तर-(b)

$$\text{व्याख्या— दिया है } x^2 + \frac{1}{x^2} = \frac{31}{9} \therefore \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 \Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} + 2$$

$$= \frac{31}{9} + 2 \Rightarrow \frac{49}{9}$$

$$\therefore \left(x + \frac{1}{x} \right) = \frac{\sqrt{49}}{\sqrt{9}} = \frac{7}{3}$$

$$\therefore x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x} \right) \left\{ \left(x^2 + \frac{1}{x^2} - 1 \right) \right\}$$

$$= \left(\frac{7}{3} \right) \left\{ \left(\frac{31}{9} - 1 \right) \right\} = \frac{7}{3} \times \frac{22}{9}$$

$$= \frac{154}{27}$$

$$\therefore \left(x^3 + \frac{1}{x^3} \right) = \frac{154}{27}$$

Trick-

$$\therefore x^2 + \frac{1}{x^2} = \frac{31}{9}$$

$$\therefore x + \frac{1}{x} = \sqrt{\frac{31}{9} + 2} = \sqrt{\frac{49}{9}} = \frac{7}{3}$$

$$\therefore x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(\frac{7}{3} \right)^3 - 3 \times \frac{7}{3}$$

$$= \frac{343}{27} - 7$$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = \frac{154}{27}$$

नोट : (i) यदि $x^2 + \frac{1}{x^2} = a$

$$\text{तब } x + \frac{1}{x} = \sqrt{a+2}$$

(ii) यदि $x + \frac{1}{x} = a$

$$\text{तब } x^3 + \frac{1}{x^3} = a^3 - 3a$$

4. यदि $2x + \left(\frac{9}{x} \right) = 9$, तो $x^2 + \left(\frac{1}{x^2} \right)$ का न्यूनतम मान क्या होगा?

(a) $\frac{95}{36}$

(b) $\frac{97}{36}$

(c) $\frac{86}{25}$

(d) $\frac{623}{27}$

14. यदि $x^2 - x\sqrt{68} + 1 = 0$ हो, तो $x - \frac{1}{x}$ का मान क्या है?
- (a) $\sqrt{66}$ (b) 8
 (c) $\sqrt{62}$ (d) 6

S.S.C. अंसलाइन C.P.O. 1 जुलाई, 2017 (II-पार्टी)

उत्तर-(b)

व्याख्या— दिया है $x^2 - x\sqrt{68} + 1 = 0$

$$\therefore x^2 + 1 = x\sqrt{68}$$

$$\frac{x^2 + 1}{x} = \sqrt{68}$$

$$x + \frac{1}{x} = \sqrt{68}$$

(दोनों पक्षों का वर्ग करने पर)

$$\therefore \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = (\sqrt{68})^2$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 = 68$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 66$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} - 2 = 66 - 2 \quad (\text{दोनों पक्षों में } 2 \text{ घटाने पर})$$

$$\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = (8)^2$$

$$\therefore \left(x - \frac{1}{x}\right) = 8$$

Trick—

$$x^2 - x\sqrt{68} + 1 = 0$$

$$x^2 + 1 = x\sqrt{68}$$

$$x + \frac{1}{x} = \sqrt{68}$$

$$\therefore x - \frac{1}{x} = \sqrt{(\sqrt{68})^2 - 4} \quad \left[\because x + \frac{1}{x} = a \right]$$

$$= \sqrt{68 - 4} \quad \left[\therefore x - \frac{1}{x} = \sqrt{a^2 - 4} \right]$$

$$x - \frac{1}{x} = 8$$

15. जब $\left[x + \left(\frac{1}{x}\right)\right] = 5$ है, तो $\left[x - \left(\frac{1}{x}\right)\right]$ का मान क्या है?

- (a) 11 (b) $\pm\sqrt{22}$
 (c) 21 (d) $\pm\sqrt{21}$

S.S.C. अंसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (I-पार्टी)

उत्तर-(d)

व्याख्या— दिया है $x + \frac{1}{x} = 5$

$$\therefore \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4x \cdot \frac{1}{x}$$

$$= (5)^2 - 4 = 25 - 4 \Rightarrow 21$$

$$\therefore \left(x - \frac{1}{x}\right) = \pm\sqrt{21}$$

Trick—

$$x + \frac{1}{x} = 5$$

$$\therefore x - \frac{1}{x} = \sqrt{5^2 - 4} \quad \left[\because x + \frac{1}{x} = a \right]$$

$$x - \frac{1}{x} = \sqrt{21} \quad \left[\therefore x - \frac{1}{x} = \sqrt{a^2 - 4} \right]$$

$$\text{या } x - \frac{1}{x} = \pm\sqrt{21}$$

16. यदि $x + \frac{1}{9x} = 4$ हो, तो $9x^2 + \frac{1}{9x^2}$ का मान क्या होगा?

- (a) 140 (b) 142
 (c) 144 (d) 146

S.S.C. अंसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 28 अगस्त, 2016 (III-पार्टी)

उत्तर-(b)

व्याख्या— ∵ $x + \frac{1}{9x} = 4$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$$x^2 + \frac{1}{81x^2} + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{9x} = 16$$

$$x^2 + \frac{1}{81x^2} = 16 - \frac{2}{9}$$

$$\therefore 9x^2 + \frac{9}{81x^2} = 144 - 2$$

$$\text{या } 9x^2 + \frac{1}{9x^2} = 142$$

Trick—

$$x + \frac{1}{9x} = 4$$

$$\text{या } 3x + \frac{3}{9x} = 4 \times 3$$

$$3x + \frac{1}{3x} = 12$$

$$\therefore 9x^2 + \frac{1}{9x^2} = (12)^2 - 2 \quad \left[\because x + \frac{1}{x} = a \right]$$

$$= 144 - 2 \quad \left[\therefore x^2 + \frac{1}{x^2} = a^2 - 2 \right]$$

$$= 142$$

17. यदि $x - \left(\frac{1}{x}\right) = 3$, तो $\frac{(2x^4 + 3x^3 + 13x^2 - 3x + 2)}{(3x^4 + 3)}$ का मान क्या होगा?

(a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{2}{3}$ (c) $\frac{4}{3}$ (d) $\frac{5}{3}$

S.S.C. अॅसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (II-पार्टी)

उत्तर-(c)

$$\text{व्याख्या}— x - \frac{1}{x} = 3 \quad \dots\text{(i)}$$

समी. (i) का वर्ग करने पर

$$x^2 + \frac{1}{x^2} - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 9$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 9 + 2 \Rightarrow 11 \quad \dots\text{(ii)}$$

$$\frac{2x^4 + 3x^3 + 13x^2 - 3x + 2}{3x^4 + 3}$$

$$= \frac{x^2 \left(2x^2 + 3x + 13 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}\right)}{3x^2 \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)}$$

$$= \frac{\left[2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 3\left(x - \frac{1}{x}\right) + 13\right]}{3\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)}$$

$$= \frac{2 \times 11 + 3 \times 3 + 13}{3(11)} \quad [\text{समी. (i) तथा (ii) से}]$$

$$= \frac{22 + 9 + 13}{33} = \frac{44}{33} \Rightarrow \frac{4}{3}$$

Trick—

$$x - \frac{1}{x} = 3 \quad (\text{दिया है})$$

$$\frac{2x^4 + 3x^3 + 13x^2 - 3x + 2}{3x^4 + 3}$$

$$= \frac{x^2 \left[2x^2 + 3x + 13 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}\right]}{3x^2 \left[x^2 + \frac{1}{x^2}\right]}$$

$$= \frac{\left(2x^2 + \frac{2}{x^2}\right) + \left(3x - \frac{3}{x}\right) + 13}{3\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)}$$

$$\Rightarrow \frac{2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 3\left(x - \frac{1}{x}\right) + 13}{3\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)}$$

$$= \frac{2 \times 11 + 3 \times 3 + 13}{3 \times 11}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{35 + 9}{33} \\ &= \frac{44}{33} \\ &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

18. यदि $pq(p+q) = 1$ हो, तो $\frac{1}{p^3 q^3} - p^3 - q^3$ का मान क्या होगा?

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

S.S.C. अॅसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 29 सितंबर, 2016 (III-पार्टी)

उत्तर-(c)

$$\text{व्याख्या}— pq(p+q) = 1$$

$$(p+q) = \frac{1}{pq}$$

दोनों पक्षों का घन करने पर

$$(p+q)^3 = \left(\frac{1}{pq}\right)^3$$

$$p^3 + q^3 + 3pq(p+q) = \frac{1}{p^3 q^3}$$

$$p^3 + q^3 + 3pq \times \frac{1}{pq} = \frac{1}{p^3 q^3}$$

$$\frac{1}{p^3 q^3} - p^3 - q^3 = 3$$

19. यदि $x + \frac{1}{x} = 1$ है, तो $\frac{x^2 + 3x + 1}{x^2 + 7x + 1}$ का मान है-

- (a) 1/2 (b) 1
(c) 2 (d) 3/7

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012, 2015

S.S.C. अॅसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 27 अगस्त, 2016 (I-पार्टी)

S.S.C. अॅसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 2 सितंबर, 2016 (I-पार्टी)

S.S.C. अॅसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 9 सितंबर, 2016 (III-पार्टी)

S.S.C. संयुक्त हायर सेकेंडरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2010, 2011, 2012, 2014

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

उत्तर-(a)

$$\text{व्याख्या}— x + \frac{1}{x} = 1$$

$$\therefore x^2 + 1 = x \dots\text{(i)}$$

$$\therefore \frac{x^2 + 3x + 1}{x^2 + 7x + 1} = \frac{x^2 + 1 + 3x}{x^2 + 1 + 7x}$$

$$= \frac{x + 3x}{x + 7x} \quad (\text{समी. (i) से})$$

$$= \frac{4x}{8x} \Rightarrow \frac{1}{2}$$

व्याख्या— दिया है— $2x + \frac{2}{x} = 3$

$$\text{या } x + \frac{1}{x} = \frac{3}{2}$$

दोनों पक्षों का घन करने पर

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 = \left(\frac{3}{2}\right)^3$$

$$\text{या } x^3 + \frac{1}{x^3} + 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right) = \frac{27}{8}$$

$$\text{या } x^3 + \frac{1}{x^3} = \frac{27}{8} - 3 \left(x + \frac{1}{x}\right)$$

$$\text{या } x^3 + \frac{1}{x^3} + 2 = \frac{27}{8} - \frac{3 \times 3}{2} + 2 \quad [\text{समी. (i) से}]$$

$$= \frac{27}{8} - \frac{9}{2} + 2$$

$$= \frac{27 - 36 + 16}{8} = \frac{43 - 36}{8} \Rightarrow \frac{7}{8}$$

Trick—

$$2x + \frac{2}{x} = 3$$

$$\text{या } x + \frac{1}{x} = \frac{3}{2}$$

$$\therefore x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(\frac{3}{2}\right)^3 - 3 \times \frac{3}{2}$$

$$= \frac{27}{8} - \frac{9}{2}$$

$$= \frac{27 - 36}{8}$$

$$= \frac{-9}{8}$$

$$\therefore x^3 + \frac{1}{x^3} + 2 = \frac{-9}{8} + 2$$

$$= \frac{-9 + 16}{8} = \frac{7}{8}$$

27. यदि $C + \frac{1}{C} = 3$ हो, तो $(C - 3)^7 + \frac{1}{C^7}$ का मान क्या है?

- | | |
|-------|-------|
| (a) 2 | (b) 0 |
| (c) 3 | (d) 1 |

S.S.C. ऑफलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 8 सितंबर, 2016 (I-पार्टी)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $C + \frac{1}{C} = 3$

$$\text{या } (C - 3) = \frac{1}{C}$$

$$\therefore (C - 3)^7 + \frac{1}{C^7} = \left(-\frac{1}{C}\right)^7 + \frac{1}{C^7}$$

$$= \left(-\frac{1}{C}\right)^7 + \frac{1}{C^7}$$

$$= -\frac{1}{C^7} + \frac{1}{C^7} \Rightarrow 0$$

28. यदि $\left(\frac{1}{a}\right)(a^2 + 1) = 3$ हो, तो $\frac{a^6 + 1}{a^3}$ का मान ज्ञात केजिए?

- | | |
|--------|--------|
| (a) 9 | (b) 18 |
| (c) 27 | (d) 1 |

S.S.C. संयुक्त हायर सेकंडरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

S.S.C. ऑफलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 9 सितंबर, 2016 (III-पार्टी)

उत्तर—(b)

व्याख्या— दिया है—

$$\frac{1}{a}(a^2 + 1) = 3$$

$$\text{या } a + \frac{1}{a} = 3$$

दोनों पक्षों का घन करने पर

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^3 = a^3 + \frac{1}{a^3} + 3 \cdot a \cdot \frac{1}{a} \left(a + \frac{1}{a}\right)$$

$$\text{या } 3^3 = a^3 + \frac{1}{a^3} + 3 \cdot 3$$

$$\text{या } 27 - 9 = a^3 + \frac{1}{a^3}$$

$$\text{या } \frac{a^6 + 1}{a^3} = 18$$

Trick—

$$\frac{1}{a}(a^2 + 1) = 3$$

$$\text{या } a + \frac{1}{a} = 3$$

$$\therefore \frac{a^6 + 1}{a^3} = a^3 + \frac{1}{a^3} = (3)^3 - 3 \times 3 \quad \begin{bmatrix} \because x + \frac{1}{x} = a \\ \text{तब } x^3 + \frac{1}{x^3} = a^3 - 3a \end{bmatrix}$$

$$= 27 - 9$$

$$a^3 + \frac{1}{a^3} = 18$$

$$\text{या } \frac{a^6 + 1}{a^3} = 18$$

Trick-

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 2$$

माना $x = 1$ तब

$$(1)^2 + \frac{1}{(1)^2} = 2$$

$$2 = 2$$

$$\therefore x - \frac{1}{x} = 1 - \frac{1}{1} = 0$$

57. यदि $p = 9$, $q = \sqrt{17}$ हो, तो $(p^2 - q^2)^{-1/3}$ का मान किसके बराबर होगा?

- (a) 4 (b) 1/4
(c) 3 (d) 1/3

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 4 सितंबर, 2016 (III-पार्टी)
उत्तर-(b)

व्याख्या— $p = 9$, $q = \sqrt{17}$

$$\begin{aligned}\therefore (p^2 - q^2)^{-1/3} &= \frac{1}{(p^2 - q^2)^{1/3}} \\ &= \frac{1}{(81 - 17)^{1/3}} = \frac{1}{64^{1/3}} \\ &= \frac{1}{4^{3 \times \frac{1}{3}}} \Rightarrow \frac{1}{4}\end{aligned}$$

58. यदि $\frac{x}{a} = \frac{1}{a} - \frac{1}{x}$ हो, तो $x - x^2$ का मान कितना होगा?

- (a) -a (b) $\frac{1}{a}$
(c) $-\frac{1}{a}$ (d) a

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर-(d)

व्याख्या— $\therefore \frac{x}{a} = \frac{1}{a} - \frac{1}{x}$

$$\text{या } \frac{1}{x} = \frac{1}{a} - \frac{x}{a}$$

$$\therefore \frac{1}{x} = \frac{1-x}{a}$$

$$\therefore \frac{a}{x} = 1 - x \dots\dots (i)$$

$$\text{अब } x - x^2 = x(1 - x)$$

$$\begin{aligned}&= x \times \frac{a}{x} \quad (\text{समी. (i) से}) \\ &= a\end{aligned}$$

59. यदि $x = 11$, तो $x^5 - 12x^4 - 12x^3 - 12x^2 + 12x - 1$ का मान क्या होगा?

- (a) 5 (b) 10
(c) 15 (d) 20

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2013

उत्तर-(b)

$$\begin{aligned}\text{व्याख्या— } &x^5 - 12x^4 + 12x^3 - 12x^2 + 12x - 1 \\ &= x^5 - 11x^4 - x^4 + 11x^3 + x^3 - 11x^2 - x^2 + 11x + x - 1 \\ &= x^4(x-11) - x^3(x-11) + x^2(x-11) - x(x-11) + x - 1 \\ &x = 11 \text{ रखने पर} \\ &= x^4(11-11) - x^3(11-11) + x^2(11-11) - x(11-11) \\ &\quad + (11-1) \\ &= 0 + 10 \Rightarrow 10\end{aligned}$$

60. यदि $x + \frac{1}{x} = -2$ हो, तो $1 + x^3 + x^6$ का मान क्या है?

- (a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) -1

S.S.C. ऑनलाइन CPO SI (T-I) 5 जुलाई, 2017 (II-पार्टी)

उत्तर-(b)

व्याख्या— दिया है— $x + \frac{1}{x} = -2$

$$x^2 + 1 = -2x$$

$$x^2 + 1 + 2x = 0$$

$$(x+1)^2 = 0$$

$$x+1 = 0$$

$$x = -1$$

$$\therefore 1 + x^3 + x^6 = 1 + (-1)^3 + (-1)^6 \quad [x \text{ का मान रखा गया}]$$

$$= 1 - 1 + 1 \Rightarrow 1$$

Trick—

यदि $x + \frac{1}{x} = -2$

तब $x = -1$

$$\therefore 1 + x^3 + x^6 = 1 + (-1)^3 + (-1)^6$$

$$= 1$$

61. यदि $x = 1/\sqrt{2} + 1$ हो, तो $x^2 + 2x - 1$ का मान क्या होगा?

- (a) $2\sqrt{2}$ (b) 4
(c) 0 (d) 2

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2013

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 8 सितंबर, 2016 (III-पार्टी)

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 27 अगस्त, 2016 (I-पार्टी)

उत्तर-(c)

व्याख्या— दिया है- $x = \frac{1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2}-1$
 (हर का परिमेयीकरण करने पर)
 या $(x+1) = \sqrt{2}$
 दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
 $x^2 + 1 + 2x = 2$
 या $x^2 + 2x - 1 = 0$

62. यदि $a = \sqrt{2} + 1, b = \sqrt{2} - 1$ हो, तो $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1}$ का मान बताएं?

- (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

S.S.C. ऑफलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 9 सितंबर, 2016 (III-पार्टी)
 S.S.C. संयुक्त हायर सेकंडरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर—(b)

व्याख्या— ∵ $a = \sqrt{2} + 1$
 या $a+1 = 2 + \sqrt{2} \Rightarrow \frac{1}{a+1} = \frac{1}{2+\sqrt{2}}$
 तथा $b+1 = \sqrt{2} \Rightarrow \frac{1}{b+1} = \frac{1}{\sqrt{2}}$
 $\therefore \frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} = \frac{1}{2+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}$
 $= \frac{\sqrt{2} + 2 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}(2 + \sqrt{2})}$
 $= \frac{2\sqrt{2} + 2}{2 + 2\sqrt{2}} \Rightarrow 1$

63. यदि $x+y=2a$ है, तो $\frac{a}{x-a} + \frac{a}{y-a}$ का मान है-

- (a) -1 (b) 2 (c) 1 (d) 0

S.S.C. संयुक्त हायर सेकंडरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(d)

व्याख्या— ∵ $x+y=2a$
 $\therefore a = \frac{x+y}{2}$
 \therefore प्रश्न से
 $\frac{a}{x-a} + \frac{a}{y-a} = \frac{\frac{x+y}{2}}{x-\left(\frac{x+y}{2}\right)} + \frac{\frac{x+y}{2}}{y-\left(\frac{x+y}{2}\right)}$
 $= \frac{\frac{(x+y)}{2}}{\frac{(2x-x-y)}{2}} + \frac{\frac{(x+y)}{2}}{\frac{(2y-x-y)}{2}}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(x+y)}{(x-y)} + \frac{(x+y)}{(y-x)} \\
 &= \frac{(x+y)}{(x-y)} + \frac{(x+y)}{-(x-y)} \\
 &= \frac{(x+y)}{(x-y)} - \frac{(x+y)}{(x-y)} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Trick— दिया है $x+y=2a$ (i)

$y=0$ समी. (i) में रखने पर-

$$x=2a$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \frac{a}{x-a} + \frac{a}{y-a} &= \frac{a}{2a-a} + \frac{a}{0-a} \\
 &= \frac{a}{a} - \frac{a}{a} = 1 - 1 \Rightarrow 0
 \end{aligned}$$

64. यदि $a=xb$ तथा $b=ay$ हो, तो $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{y+1}$ कितना होगा?

- (a) b (b) 2 ab
 (c) 1 (d) a

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013
 S.S.C. संयुक्त हायर सेकंडरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर—(c)

व्याख्या— $a=xb$ तथा $b=ay$

$$x = \frac{a}{b}, \text{ तथा } y = \frac{b}{a}$$

दोनों तरफ 1 जोड़ने पर

$$x+1 = \frac{a}{b} + 1 \quad \text{तथा} \quad y+1 = \frac{b}{a} + 1$$

$$x+1 = \frac{a+b}{b} \quad \text{तथा} \quad y+1 = \frac{b+a}{a}$$

$$\therefore \frac{1}{x+1} = \frac{1}{(a+b)} \quad \text{तथा} \quad \frac{1}{y+1} = \frac{1}{b+a}$$

$$\frac{1}{x+1} = \frac{b}{a+b} \quad \text{तथा} \quad \frac{1}{y+1} = \frac{a}{a+b}$$

प्रश्नानुसार

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{x+1} + \frac{1}{y+1} &= \frac{b}{a+b} + \frac{a}{a+b} \\
 &= \frac{a+b}{a+b} \Rightarrow 1
 \end{aligned}$$

Trick—

$$a=xb, b=ay$$

माना $a=1, b=2$

$$\text{तब } x = \frac{1}{x}, y = 2$$

$$\begin{aligned}
 \text{अब } \frac{1}{x+1} + \frac{1}{y+1} &= \frac{1}{\frac{1}{2}+1} + \frac{1}{2+1} \\
 &= \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \\
 &= \frac{3}{3} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

65. यदि $p^3 - q^3 = (p - q) \{(p + q)^2 - xpq\}$ हो, तो x का मान क्या है?

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 30 अगस्त, 2016 (II-पारी)

उत्तर—(a)

$$\begin{aligned} \text{यास्था} - p^3 - q^3 &= (p - q) \{(p + q)^2 - xpq\} \\ \text{या} \quad (p - q)(p^2 + q^2 + pq) &= (p - q) \{ (p + q)^2 - x \, pq \} \\ \text{या} \quad p^2 + q^2 + pq &= p^2 + q^2 + 2pq - x \, pq \\ \text{या} \quad x \, pq &= 2pq - pq \\ \text{या} \quad x = \frac{pq}{pq} &\Rightarrow 1 \end{aligned}$$

66. यदि $x = 3/2$ हो, तो $27x^3 - 54x^2 + 36x - 11$ का मान क्या होगा?

- (a) $11\frac{3}{8}$ (b) $11\frac{5}{8}$
 (c) $12\frac{3}{8}$ (d) $12\frac{5}{8}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 1 सितंबर, 2016 (I-पाठी)
उत्तर—(d)

$$\begin{aligned}
 \text{व्याख्या} - & \quad \because x = 3/2 \\
 \therefore & \quad 27x^3 - 54x^2 + 36x - 11 \\
 & = 27 \times \frac{27}{8} - 54 \times \frac{9}{4} + 36 \times \frac{3}{2} - 11 \\
 & = 27 \times \frac{27}{8} - \frac{27 \times 9}{2} + 54 - 11 \\
 & = \frac{27 \times 27}{8} - 27 \times \frac{9}{2} + 43 \\
 & = \frac{27 \times 27 - 27 \times 9 \times 4 + 43 \times 8}{8} \\
 & = \frac{729 - 972 + 344}{8} = \frac{1073 - 972}{8} \\
 & = \frac{101}{8} \\
 & = 12\frac{5}{8}
 \end{aligned}$$

67. यदि $x = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ तथा $y = \sqrt{3} - \sqrt{2}$ हो, तो $8xy(x^2 + y^2)$ का मान कितना होगा?

- (a) $16\sqrt{6}$ (b) 32
 (c) $48\sqrt{2}$ (d) 80

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

Trick-

$$x = \sqrt{3} + \sqrt{2}$$

$$y = \sqrt{3} - \sqrt{2} = \frac{1}{x}$$

$$\therefore x + \frac{1}{x} = \sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{2}$$

$$= 2\sqrt{3}$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = (2\sqrt{3})^2 - 2 = 10 \quad \dots\dots (i)$$

$$xy = x \times \frac{1}{x} = 1 \quad [\because y = \frac{1}{x}] \quad \dots\dots(ii)$$

- 68.** यदि $x = 12$ और $y = 4$, तो $(x+y)^{\frac{x}{y}}$ का मान क्या है?

S.S.C. ऑफलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 3 सितंबर, 2016 (I-पाठी)

उत्तर—(c)

व्याख्या— दिया है- $x = 12$ और $y = 4$

$$\therefore (x+y)^{\frac{5}{y}} = (12+4)^{\frac{12}{4}} = 16^3$$

$$= 16 \times 16 \times 16 \Rightarrow 4096$$

73. यदि $x = \sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}$ और $y = \sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}$ हैं, तो $\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{x}$ का मान है-

- (a) $\sqrt{3}$
- (b) $3\sqrt{3}$
- (c) $16\sqrt{3}$
- (d) $2\sqrt{3}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014
उत्तर-(b)

व्याख्या— $x = \sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}$ और $y = \sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}$

$$\therefore (x+y) = 2\sqrt{3} \quad \dots(i) \text{ तथा } xy = 3 - \frac{1}{3} = \frac{8}{3}$$

(समी. (i) का) घन करने पर

$$x^3 + y^3 + 3xy(x+y) = (2\sqrt{3})^3$$

$$x^3 + y^3 + 3 \times \frac{8}{3} \times 2\sqrt{3} = 24\sqrt{3}$$

$$x^3 + y^3 + 16\sqrt{3} = 24\sqrt{3}$$

$$\therefore x^3 + y^3 = 24\sqrt{3} - 16\sqrt{3}$$

$$= 8\sqrt{3}$$

प्रश्नानुसार

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{x} &= \frac{x^3 + y^3}{xy} \\ &= \frac{8\sqrt{3}}{\frac{8}{3}} \Rightarrow 3\sqrt{3} \end{aligned}$$

74. यदि $x = a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}}, y = a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}}$ हैं, तो $(x^4 - x^2y^2 - 1) + (y^4 - x^2y^2 + 1)$ का मान है-

- (a) 13
- (b) 16
- (c) 12
- (d) 14

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 10 सितंबर, 2016 (I-पार्टी)
S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014
उत्तर-(b)

व्याख्या— $x = a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}}, y = a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}}$

वर्ग करने पर

$$x^2 = a + \frac{1}{a} + 2, \quad y^2 = a + \frac{1}{a} - 2$$

$$\therefore (x^4 - x^2y^2 - 1) + (y^4 - x^2y^2 + 1)$$

$$= x^4 - x^2y^2 - 1 + y^4 - x^2y^2 + 1$$

$$= x^4 + y^4 - 2x^2y^2$$

$$= (x^2 - y^2)^2$$

$$= \left(a + \frac{1}{a} + 2 - a - \frac{1}{a} + 2 \right)^2$$

$$= (4)^2 \Rightarrow 16$$

75. यदि $x = 2 + \sqrt{3}$ हो, तो $\frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1}$ का मान बताएं।

- (a) $\frac{2}{3}$
- (b) $\frac{3}{4}$
- (c) $\frac{4}{5}$
- (d) $\frac{3}{5}$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 3 सितंबर, 2016 (II-पार्टी)
S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर-(d)

व्याख्या— दिया है- $x = 2 + \sqrt{3}$

या $(x-2) = \sqrt{3}$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$$x^2 + 4 - 4x = 3$$

या $x^2 + 1 = 4x \quad \dots(i)$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1} &= \frac{4x - x}{4x + x} \\ &= \frac{3x}{5x} \Rightarrow \frac{3}{5} \end{aligned}$$

Trick—

दिया है $x = 2 + \sqrt{3}$

$$x^2 = 7 + 4\sqrt{3}$$

मान रखने पर

$$\frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1} \Rightarrow \frac{7 + 4\sqrt{3} - 2 - \sqrt{3} + 1}{7 + 4\sqrt{3} + 2 + \sqrt{3} + 1}$$

$$\frac{6 + 3\sqrt{3}}{10 + 5\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{3(2 + \sqrt{3})}{5(2 + \sqrt{3})}$$

$$= \frac{3}{5}$$

76. यदि $x = \sqrt{2} + 1$ हो, तो $x^4 - \frac{1}{x^4}$ का मान कितना होगा?

- (a) $8\sqrt{2}$
- (b) $18\sqrt{2}$
- (c) $6\sqrt{2}$
- (d) $24\sqrt{2}$

S.S.C. E.C.I. परीक्षा, 2012

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 29 अगस्त, 2016 (III-पार्टी)

उत्तर-(d)

व्याख्या— दिया है- $x = \sqrt{2} + 1$

$$x^2 = 2 + 1 + 2\sqrt{2}$$

$$= 3 + 2\sqrt{2}$$

$$\text{या } x^4 = 9 + 8 + 2 \cdot 3 \cdot 2\sqrt{2}$$

$$= 17 + 12\sqrt{2}$$

इसी प्रकार

Trick-

$$\frac{x}{5} + \frac{5}{x} = -2$$

$$\text{माना } \frac{x}{5} = x$$

$$\text{तब } x \times \frac{1}{x} = -2$$

$$\therefore x = -1$$

$$\text{या } \frac{x}{5} = -1$$

$$x = -5$$

$$\therefore x^3 = (-5)^3 = -125$$

85. यदि $x = \frac{(\sqrt{2}+1)}{(\sqrt{2}-1)}$ है, तो $\frac{(x^5+x^4+x^2+x)}{x^3}$ का मान क्या है?

(a) 40

(b) 37.5

(c) 38

(d) $20\sqrt{2}$

S.S.C. ऑफिसर नियुक्ति स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (I-पारी)

उत्तर-(a)

व्याख्या- दिया है- $x = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} \Rightarrow x = \frac{(\sqrt{2}+1)^2}{2-1}$
 $x = 2+1+2\sqrt{2} \Rightarrow x = 3+2\sqrt{2}$
 $\therefore \frac{1}{x} = 3-2\sqrt{2}$
 $\frac{x^5+x^4+x^2+x}{x^3} = \frac{x^5+x+x^4+x^2}{x^3}$
 $= \frac{x^3(x^2+\frac{1}{x^2}+x+\frac{1}{x})}{x^3}$
 $= \left(x^2+\frac{1}{x^2}\right) + \left(x+\frac{1}{x}\right)$
 $= (6)^2 - 2 + 6 = 36 - 2 + 6 \Rightarrow 40$
 $\left[\because x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \right]$

86. यदि $x = 5-2\sqrt{6}$ है, तो $\sqrt{x} + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ का मान क्या है?

(a) 5

(b) 2

(c) $2\sqrt{3}$

(d) $2\sqrt{2}$

S.S.C. ऑफिसर नियुक्ति स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (I-पारी)

उत्तर-(c)

व्याख्या- माना $y = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \Rightarrow y^2 = x + \frac{1}{x} + 2$
 $y^2 = 5 - 2\sqrt{6} + 5 + 2\sqrt{6} + 2$
 $y^2 = 12 \quad \left(\because x = 5 - 2\sqrt{6} \right)$
 $\therefore y = 2\sqrt{3}$

87. यदि $x = 3 - 2\sqrt{2}$ है, तो $\sqrt{x} + (1/\sqrt{x})$ का मान ____ है।

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) $2\sqrt{2}$

S.S.C. ऑफिसर नियुक्ति स्तरीय (T-I) 2 जुलाई, 2017 (I-पारी)

उत्तर-(d)

व्याख्या- $x = 3 - 2\sqrt{2} \Rightarrow x = 1 + 2 - 2\sqrt{2}$

$$x = (1)^2 + (\sqrt{2})^2 - 2\sqrt{2} \Rightarrow x = (\sqrt{2} - 1)^2$$

$$\therefore \sqrt{x} = \sqrt{2} - 1 \text{ तथा } \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{2} + 1$$

$$\therefore \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{2} - 1 + \sqrt{2} + 1 = 2\sqrt{2}$$

88. यदि $\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + (y-4)^2 = 0$ हो, तो $\frac{y+x}{y-x}$ का मान क्या है?

(a) $\frac{11}{13}$ (b) $\frac{13}{11}$ (c) $\frac{16}{9}$ (d) $\frac{9}{16}$

S.S.C. ऑफिसर नियुक्ति स्तरीय (T-I) 5 अगस्त, 2017 (III-पारी)

उत्तर-(b)

व्याख्या- यदि $\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + (y-4)^2 = 0$

[\because किसी संख्या (धनात्मक या ऋणात्मक) का वर्ग एक धनात्मक संख्या होती है और दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग तभी शून्य हो सकता है जब वे अलग-अलग शून्य हों]

$$\therefore \left(x - \frac{1}{3}\right)^2 = 0 \Rightarrow x - \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$$

$$\text{तथा } (y-4)^2 = 0 \Rightarrow y = 4$$

$$\therefore \frac{y+x}{y-x} = \frac{4+\frac{1}{3}}{4-\frac{1}{3}} = \frac{13}{11}$$

89. यदि $(x-2)^2 + (y+3)^2 + (z-15)^2 = 0$ हो, तो $x+y+z-5$ का मान क्या है?

(a) 5

(b) 9

(c) 15

(d) 20

S.S.C. ऑफिसर नियुक्ति स्तरीय (T-I) 6 अगस्त, 2017 (I-पारी)

उत्तर-(b)

व्याख्या- $(x-2)^2 + (y+3)^2 + (z-15)^2 = 0$

यदि $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = 0$ हो, तो इस प्रकार के व्यंजक को हल हेतु $x-a=0$ या $x=a$, $y=b$ तथा $z=c$ मान रखकर एक संभावित मान निकाला जा सकता है।

$$\therefore x-2=0, x=2$$

$$y+3=0, y=-3$$

$$z-15=0, z=15$$

$$\therefore x+y+z-5 = 2-3+15-5 \\ = -1+15-5 \\ = 15-6 \Rightarrow 9$$

$$\begin{aligned}
&= a \left[\frac{1}{4} \{(a+A)^2 + (a-A)^2\} - \frac{(a+A)(a-A)}{4} \right] \\
&= \frac{a}{4} [a^2 + A^2 + 2aA + a^2 + A^2 - 2aA - a^2 + A^2] \\
&= \frac{a}{4} [2(A^2 + a^2) - a^2 + A^2] \\
&= \frac{a}{4} [a^2 + 3A^2] \\
&= \frac{a}{4} \left[a^2 + 3 \times \frac{4b^3 - a^3}{3a} \right] \\
&= \frac{1}{4} [a^3 + 4b^3 - a^3] \\
&= \frac{4b^3}{4} \Rightarrow b^3
\end{aligned}$$

119. यदि $(a^2 + b^2)^3 = (a^3 + b^3)^2$ हो, तो $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ कितना होगा?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (a) $\frac{1}{3}$ | (b) $\frac{2}{3}$ |
| (c) $-\frac{1}{3}$ | (d) $-\frac{2}{3}$ |

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर-(b)

व्याख्या— $\because (a^2 + b^2)^3 = (a^3 + b^3)^2$

$$\begin{aligned}
\therefore a^6 + b^6 + 3a^2b^2(a^2 + b^2) &= a^6 + b^6 + 2a^3b^3 \\
\therefore 3a^2b^2(a^2 + b^2) &= 2a^3b^3 \\
\therefore (a^2 + b^2) &= \frac{2a^3b^3}{3a^2b^2} \\
\therefore (a^2 + b^2) &= \frac{2}{3}(ab) \\
\therefore \frac{a^2 + b^2}{ab} &= \frac{2}{3} \\
\therefore \frac{a}{b} + \frac{b}{a} &= \frac{2}{3}
\end{aligned}$$

120. यदि $a+b=17$ और $a-b=9$ हो, तो $(4a^2 + 4b^2)$ का मान बताइए?

- | | |
|---------|---------|
| (a) 710 | (b) 720 |
| (c) 730 | (d) 740 |

S.S.C. अॅसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 31 अगस्त, 2016 (III-पार्टी)

उत्तर-(d)

व्याख्या— प्रश्नानुसार

$$\begin{aligned}
a+b &= 17 \quad \text{(i)} \\
a-b &= 9 \quad \text{(ii)}
\end{aligned}$$

समी. (i) में (ii) जोड़ने पर

$$2a = 26 \quad \text{या } a = 13$$

a का मान समी. (i) में रखने पर

$$13+b=17$$

$$\text{या } b = 17 - 13 = 4$$

$$\therefore 4a^2 + 4b^2 = 4(a^2 + b^2)$$

$$= 4[169 + 16]$$

$$\text{या } 4a^2 + 4b^2 = 4 \times 185 \Rightarrow 740$$

Trick—

$$\therefore a+b=17 \quad \text{(i) तथा } a-b=9 \quad \text{(ii)}$$

$$\therefore 4a^2 + 4b^2 = 2[(a+b)^2 + (a-b)^2] \quad (\text{सूत्र})$$

$$= 2[(17)^2 + (9)^2] [\text{समी. (i) एवं समी. (ii) से}]$$

$$= 2(289 + 81)$$

$$= 2(370) = 740$$

$$\therefore 4a^2 + 4b^2 = 740$$

121. यदि $(x-2)(x-p)=x^2 - ax + 6$ हो, तो $(a-p)$ का मान बताइए?

- | | |
|-------|-------|
| (a) 0 | (b) 1 |
| (c) 2 | (d) 3 |

S.S.C. अॅसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 10 सितंबर, 2016 (I-पार्टी)

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\because (x-2)(x-p)=x^2 - ax + 6$

$$\therefore x^2 - px - 2x + 2p = x^2 - ax + 6$$

$$-(p+2)x + 2p = -ax + 6$$

दोनों पक्षों में x के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करने पर

$$p+2=a \quad \text{(i)}$$

$$2p=6 \quad \text{(ii)}$$

$$\text{या } p=3$$

समी. (i) में p का मान रखने पर

$$3+2=a$$

$$\text{या } a=5$$

$$\therefore (a-p)=5-3 \Rightarrow 2$$

122. यदि $a-b=1$ और $a^3 - b^3 = 61$, तो ab का मान क्या होगा?

- | | |
|---------|--------|
| (a) -20 | (b) 20 |
| (c) 30 | (d) 60 |

S.S.C. अॅसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 7 सितंबर, 2016 (II-पार्टी)

S.S.C. अॅसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 7 सितंबर, 2016 (I-पार्टी)

उत्तर—(b)

व्याख्या— दिया है $a-b=1$

$$\text{तथा } a^3 - b^3 = 61$$

$$\therefore (a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$$

$$\text{या } 1 = a^2 + b^2 - 2ab$$

$$\text{या } 1 + 2ab = a^2 + b^2 \quad \text{(i)}$$

$$\therefore a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + b^2 + ab)$$

$$= (a-b)(1 + 2ab + ab) \quad (\text{समी. (i) से})$$

$$\text{या } 61 = 1.(1 + 3ab) \quad (\text{दिया है } a^3 - b^3 = 61)$$

$$\text{या } 61 - 1 = 3ab$$

$$\text{या } \frac{60}{3} = ab$$

$$\text{या } ab = 20$$

Trick-

$$a^2 + b^2 + c^2 = 2(a - b - c) - 3$$

$$a^2 + b^2 + c^2 - 2(a - b - c) + 3 = 0$$

$$a = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = 1$$

$$b = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} +2 \\ 1 \end{bmatrix} = -1$$

$$c = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} +2 \\ 1 \end{bmatrix} = -1$$

$$\therefore a + b + c = 1 - 1 - 1 = -1$$

138. यदि $\frac{2+a}{a} + \frac{2+b}{b} + \frac{2+c}{c} = 4$, तो $\frac{ab+bc+ca}{abc}$ का मान क्या है?

- (a) 2 (b) 1 (c) 0 (d) $\frac{1}{2}$

S.S.C. अँसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 9 सितंबर, 2016 (II-पार्टी)
उत्तर-(d)

व्याख्या— $\frac{2+a}{a} + \frac{2+b}{b} + \frac{2+c}{c} = 4$
या $\frac{(2+a)bc + (2+b)ac + (2+c)ab}{abc} = 4$
या $\frac{2(ab+ac+bc)+3abc}{abc} = 4$
या $\frac{2(ab+bc+ca)}{abc} + \frac{3abc}{abc} = 4$
या $\frac{2(ab+bc+ca)}{abc} = 1$
या $\frac{ab+bc+ca}{abc} = \frac{1}{2}$

Trick-

$$\frac{2+a}{a} + \frac{2+b}{b} + \frac{2+c}{c} = 4$$

$$\frac{2}{a} + 1 + \frac{2}{b} + 1 + \frac{2}{c} + 1 = 4$$

$$\frac{2}{a} + \frac{2}{b} + \frac{2}{c} = 4 - 3$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{bc+ac+ab}{abc} = \frac{1}{2}$$

$$\text{या } \frac{ab+bc+ca}{abc} = \frac{1}{2}$$

139. यदि x, y और z ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं कि $(x-3)^2 + (y-4)^2 + (z-5)^2 = 0$ है, तो $(x+y+z)$ किसके बराबर होगा?

- (a) -12 (b) 8 (c) 8 (d) 12

S.S.C. अँसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 11 सितंबर, 2016 (I-पार्टी)
उत्तर-(d)

व्याख्या— $\therefore (x-3)^2 + (y-4)^2 + (z-5)^2 = 0$

में x, y, z वास्तविक संख्या हैं यह तभी संभव है जब प्रत्येक पद अलग-अलग शून्य हो।

अर्थात् $x-3=0, y-4=0, z-5=0$

अतः $x=3, y=4, z=5$

$$\therefore x+y+z = 3+4+5 \Rightarrow 12$$

140. यदि $a+b+c=11$ तथा $ab+bc+ca=17$ है, तो $a^3+b^3+c^3-3abc$ का मान क्या होगा?

- (a) 121 (b) 168
(c) 300 (d) 770

S.S.C. अँसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 12 अगस्त, 2017 (II-पार्टी)

उत्तर-(d)

व्याख्या—

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$$

$$\therefore (a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$$

$$(11)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(17)$$

$$\therefore a^2 + b^2 + c^2 = 121 - 34 \Rightarrow 87$$

$$\therefore a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 11 \times (87 - 17) \\ = 11 \times 70 \Rightarrow 770$$

141. यदि $a^2 + b^2 + c^2 = 2(a-b-c) - 3$ हो, तो $4a - 3b + 5c$ का मान क्या होगा?

- (a) 2 (b) 3 (c) 5 (d) 6

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2011, 2013

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011, 2013

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2012

उत्तर-(a)

व्याख्या— $a^2 + b^2 + c^2 = 2(a-b-c) - 3$

$$a^2 + b^2 + c^2 - 2a + 2b + 2c + 3 = 0$$

$$a^2 - 2a + 1 + b^2 + 2b + 1 + c^2 + 2c + 1 = 0$$

$$(a-1)^2 + (b+1)^2 + (c+1)^2 = 0$$

यदि संख्याओं के वर्गों का योग शून्य है, तो संख्याएं अलग शून्य के बराबर होंगी। अर्थात्

$$(a-1)^2 = 0 \Rightarrow a-1 = 0 \Rightarrow a = 1$$

$$(b+1)^2 = 0 \Rightarrow b+1 = 0 \Rightarrow b = -1$$

$$(c+1)^2 = 0 \Rightarrow c+1 = 0 \Rightarrow c = -1$$

$$\therefore 4a - 3b + 5c = 4 \times 1 - 3 \times (-1) + 5 \times (-1) \\ = 4 + 3 - 5 \\ = 7 - 5 \Rightarrow 2$$

Trick-

$$a^2 + b^2 + c^2 = 2(a-b-c) - 3$$

$$\text{या } a^2 + b^2 + c^2 - 2(a-b-c) + 3 = 0$$

$$a = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = 1$$

$$b = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = -1$$

$$\text{व्याख्या} - \therefore a + \frac{1}{b} = 1$$

या $a = 1 - \frac{1}{b} = \frac{(b-1)}{b}$ (i)

और $b + \frac{1}{c} = 1$

या $\frac{1}{c} = (1-b)$

या $c = \frac{1}{(1-b)}$ (ii)

$\therefore abc = \frac{(b-1)}{b} \times b \times \frac{1}{(1-b)}$ (समी. (i) और (ii) से)

$$= -\frac{(1-b)}{(1-b)} \Rightarrow -1$$

$$\begin{aligned} \text{Trick-} \\ a + \frac{1}{b} = 1, \quad b + \frac{1}{c} = 1 \\ \text{माना } a = \frac{1}{2}, b = 2 \text{ तथा } c = -1 \\ \therefore a + \frac{1}{b} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \\ b + \frac{1}{c} = 2 + \frac{1}{-1} = 1 \\ \therefore abc = \frac{1}{2} \times 2 \times -1 = -1 \end{aligned}$$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(a)

Trick-

$$\frac{x}{3} + \frac{3}{x} = 1$$

माना $\frac{x}{3} = x$

तब $x + \frac{1}{x} = 1$

$$\therefore x^3 + 1 = 0 \quad (\because x + \frac{1}{x} = 1 \text{ तब } x^3 + 1 = 0)$$

$$\therefore x^3 = -1$$

या $\left(\frac{x}{3}\right)^3 = -1$

$$x^3 = -27$$

- 159.** यदि $(4a - 3)^2 = 0$ हो, तो $64a^3 - 48a^2 + 12a + 13$ का मान बताइए?

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 3 सितंबर, 2016 (II-पार्टी)

उत्तर—(c)

$$\begin{aligned}
 &\text{व्याख्या} - (4a - 3)^2 = 0 \\
 &4a - 3 = 0 \\
 \text{या } a &= \frac{3}{4} \\
 \therefore & 64a^3 - 48a^2 + 12a + 13 \\
 &= 64 \times \frac{27}{64} - 48 \times \frac{9}{16} + 12 \times \frac{3}{4} + 13 \\
 &= 27 - 27 + 9 + 13 \\
 &= 22
 \end{aligned}$$

160. यदि $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 8 \equiv 0$ तो $x - y$ का मान है-

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर—(c)

व्याख्या— माना समी. $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 8 = 0$ के मूल (x,y) का मान (2, 2) है।

अतः (x, y) का मान समी. में रखने पर -

$$2^2 + 2^2 - 4 \times 2 - 4 \times$$

$$4 + 4 - 8 - 8 + 8$$

8 - 8

0

L.H.S. = R.H.S

अतः $x = 2$ एवं $y = 2$

165. यदि $\sqrt{x} - \sqrt{y} = 1$, $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 17$ हो, तो $\sqrt{xy} = ?$
- (a) $\sqrt{72}$ (b) 72
 (c) 32 (d) 24

S.S.C. ऑफलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 8 सितंबर, 2016 (I-पार्टी)
 उत्तर-(b)

व्याख्या— दिया है-

$$\sqrt{x} - \sqrt{y} = 1 \quad \dots \dots \dots \text{(i)}$$

$$\text{तथा} \quad \sqrt{x} + \sqrt{y} = 17 \quad \dots \dots \dots \text{(ii)}$$

समी. (i) और (ii) को जोड़ने पर

$$2\sqrt{x} = 18$$

$$\text{या} \quad \sqrt{x} = 9$$

समी. (i) में \sqrt{x} का मान रखने पर

$$9 - \sqrt{y} = 1$$

$$\text{या} \quad \sqrt{y} = 8$$

$$\therefore \sqrt{xy} = \sqrt{x} \cdot \sqrt{y}$$

$$= 9 \times 8 \Rightarrow 72$$

Trick—

$$\therefore \sqrt{x} - \sqrt{y} = 1 \quad \dots \dots \dots \text{(i)}$$

$$\text{एवं} \quad \sqrt{x} + \sqrt{y} = 17 \quad \dots \dots \dots \text{(ii)}$$

$$\therefore \sqrt{xy} = \frac{1}{4} \left[(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 - (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \right]$$

$$= \frac{1}{4} [(17)^2 - (1)^2] \quad [\text{समी. (i) एवं समी. (ii) से}]$$

$$= \frac{1}{4} [289 - 1] = \frac{1}{4} \times 288$$

$$= 72$$

$$\therefore \sqrt{xy} = 72$$

166. यदि $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = 2$ है, तो $a - b$ का मान है-
- (a) 2 (b) -1
 (c) 0 (d) 1

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015
 उत्तर-(c)

व्याख्या— $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = 2$
 ल.स.प. लेने पर

$$\frac{a^2 + b^2}{ab} = 2$$

$$a^2 + b^2 = 2ab$$

$$a^2 + b^2 - 2ab = 0$$

$$(a - b)^2 = 0$$

$$(a - b) = 0$$

Trick—

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = 2$$

माना $a = b = 1$

$$\text{तब} \quad \frac{1}{1} + \frac{1}{1} = 2$$

$$2 = 2$$

$$\therefore a - b = 1 - 1 = 0$$

167. यदि $\frac{x}{a+b} + 1 = \frac{x}{a-b} + \frac{a-b}{a+b}$, तो x किसके बराबर है?
- (a) $2a - b$ (b) $a + b$
 (c) $a - b$ (d) $2a + b$

S.S.C. ऑफलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 7 सितंबर, 2016 (II-पार्टी)
 S.S.C. ऑफलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 7 सितंबर, 2016 (I-पार्टी)

उत्तर-(c)

व्याख्या— $\because \frac{x}{a+b} + 1 = \frac{x}{a-b} + \frac{a-b}{a+b}$

$$\frac{x}{(a+b)} - \frac{x}{(a-b)} = \frac{a-b}{a+b} - 1$$

$$\text{या} \quad x \left[\frac{1}{(a+b)} - \frac{1}{(a-b)} \right] = \left[\frac{a-b - (a+b)}{a+b} \right]$$

$$\text{या} \quad x \left[\frac{a-b - a-b}{(a+b)(a-b)} \right] = \left[\frac{(a-b - a-b)}{(a+b)} \right]$$

$$\text{या} \quad \frac{x}{(a-b)} = 1$$

$$\text{या} \quad x = (a-b)$$

168. यदि $\frac{2p}{p^2 - 2p + 1} = \frac{1}{4}$ हो, तो $p + \frac{1}{p}$ का मान बताएं?

- (a) 8 (b) 10

- (c) 12 (d) इनमें से कोई

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

S.S.C. ऑफलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 31 अगस्त, 2016 (I-पार्टी)

उत्तर-(b)

व्याख्या— दिया है $\frac{2p}{p^2 - 2p + 1} = \frac{1}{4}$

$$\text{या} \quad \frac{p^2 - 2p + 1}{2p} = 4$$

$$\text{या} \quad \frac{p}{2} - 1 + \frac{1}{2p} = 4$$

$$\text{या} \quad \frac{p}{2} + \frac{1}{2p} = 5$$

$$\text{या} \quad p + \frac{1}{p} = 10$$

169. यदि $P^3 + 3P^2 + 3P = 7$ है, तो $P^2 + 2P$ का मान क्या होगा?

- (a) 4 (b) 3

- (c) 5 (d) 6

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर-(b)

174. $\left(\frac{1}{(p-n)(n-q)} + \frac{1}{(n-q)(q-p)} + \frac{1}{(q-p)(p-n)} \right)$ का मान

- क्या है?
- (a) 1
 - (b) 0
 - (c) $p+q+n$
 - (d) $2n/p+q$

S.S.C. अँसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 1 सितंबर, 2016 (II-पार्टी)

उत्तर-(b)

$$\begin{aligned} \text{व्याख्या} - & \frac{1}{(p-n)(n-q)} + \frac{1}{(n-q)(q-p)} + \frac{1}{(q-p)(p-n)} \\ &= \frac{q-p+p-n+n-q}{(p-n)(q-p)(n-q)} \\ &= 0 \end{aligned}$$

175. यदि $\frac{a}{1-2a} + \frac{b}{1-2b} + \frac{c}{1-2c} = \frac{1}{2}$, तो

- $$\frac{1}{1-2a} + \frac{1}{1-2b} + \frac{1}{1-2c}$$
- का मान क्या है?
- (a) 1
 - (b) 2
 - (c) 3
 - (d) 4

S.S.C. अँसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 10 सितंबर, 2016 (III-पार्टी)

उत्तर-(d)

$$\text{व्याख्या} - \text{दिया है} - \frac{a}{1-2a} + \frac{b}{1-2b} + \frac{c}{1-2c} = \frac{1}{2}$$

$$\text{या } \frac{2a}{1-2a} + \frac{2b}{1-2b} + \frac{2c}{1-2c} = 1$$

$$\text{या } \frac{2a}{1-2a} + 1 + \frac{2b}{1-2b} + 1 + \frac{2c}{1-2c} + 1 = 1 + 3$$

$$\text{या } \frac{2a+1-2a}{1-2a} + \frac{2b+1-2b}{1-2b} + \frac{2c+1-2c}{1-2c} = 4$$

$$\text{या } \frac{1}{1-2a} + \frac{1}{1-2b} + \frac{1}{1-2c} = 4$$

$$\text{Trick} - \frac{a}{1-2a} + \frac{b}{1-2b} + \frac{c}{1-2c} = \frac{1}{2}$$

$b=c=0$ रखने पर-

$$\frac{a}{1-2a} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2a = 1 - 2a \Rightarrow a = 1/4$$

$$\therefore \frac{1}{1-2a} + \frac{1}{1-2b} + \frac{1}{1-2c} = \frac{1}{1-\frac{2}{4}} + 1 + 1$$

$$= \frac{4}{2} + 1 + 1 \Rightarrow 4$$

176. यदि $\frac{a^2}{b+c} = \frac{b^2}{c+a} = \frac{c^2}{a+b} = 1$ हो, तो

$$\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c}$$
 का मान क्या है?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

S.S.C. अँसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 1 सितंबर, 2016 (II-पार्टी)

उत्तर-(a)

$$\text{व्याख्या} - \text{दिया है} - \frac{a^2}{b+c} = 1$$

$$\text{या } a^2 = b+c$$

$$\text{या } a^2 + a = a + b + c$$

$$\text{या } a(a+1) = a + b + c$$

$$\text{या } \frac{1}{1+a} = \frac{a}{a+b+c}$$

इसी प्रकार

$$\frac{1}{1+b} = \frac{b}{a+b+c}$$

$$\text{और } \frac{1}{1+c} = \frac{c}{a+b+c}$$

$$\therefore \frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c}$$

$$= \frac{a}{a+b+c} + \frac{b}{a+b+c} + \frac{c}{a+b+c}$$

$$= \frac{(a+b+c)}{(a+b+c)} \Rightarrow 1$$

Trick-

$$\frac{a^2}{b+c} = \frac{b^2}{c+a} = \frac{c^2}{a+b} = 1$$

माना $a=b=c=2$

$$\text{तब } \frac{2^2}{2+2} = \frac{2^2}{2+2} = \frac{2^2}{2+2} = 1$$

$$\therefore \frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c} = \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2}$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$$

$$= 1$$

177. यदि $a^2 = by + cz$, $b^2 = cz + ax$, $c^2 = ax + by$ हो, तो

$$\frac{x}{a+x} + \frac{y}{b+y} + \frac{z}{c+z}$$
 का मान क्या है?

- (a) 1
- (b) $a+b+c$
- (c) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$
- (d) 0

S.S.C. अँसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 30 अगस्त, 2016 (II-पार्टी)

उत्तर-(a)

व्याख्या— $\therefore x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x+y+z)$
 $[x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx]$

$$\begin{aligned} x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz &= \frac{(x+y+z)}{2} [2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2xy - 2yz - 2zx] \\ &= \frac{(x+y+z)}{2} [x^2 + y^2 - 2xy + y^2 + z^2 - 2yz + z^2 + x^2 - 2zx] \\ &= \frac{(x+y+z)}{2} [(x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2] \end{aligned}$$

दिया है $x = 999, y = 1000, z = 1001$

$$\begin{aligned} \therefore x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz &= \frac{(999+1000+1001)}{2} \times \\ &[(999-1000)^2 + (1000-1001)^2 + (1001-999)^2] \\ &= \frac{3000}{2} [(-1)^2 + (-1)^2 + (2)^2] \\ &= 1500 [1+1+4] \\ &= 1500 \times 6 = 9000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz}{x-y+z} &= \frac{9000}{999-1000+1001} \\ &= \frac{9000}{2000-1000} \\ &= \frac{9000}{1000} \Rightarrow 9 \end{aligned}$$

Trick—

$$\frac{\frac{1}{2}[(x+y+z)\{(x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2\}]}{x-y+z}$$

$\Rightarrow x, y, z$ का मान रखने पर

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{1}{2}[3000 \times \{1^2 + 1^2 + 2^2\}]}{1000} \\ &= \frac{\frac{1}{2}[3000 \times 6]}{1000} \\ &= \frac{3000 \times 3}{1000} \\ &= 9 \end{aligned}$$

Trick—

नोट : यदि a, b, c तीन क्रमागत संख्याएँ हो तब

- (i) $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 9 \times b \times (d^2)$ जहाँ $d = b-a = c-b$
(ii) $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = 2$

प्रश्नानुसार

$$\frac{x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz}{x-y+z} = \frac{9 \times 1000 \times (1)^2}{999-1000+1001} = \frac{9 \times 1000}{1000} = 9$$

223. $\frac{0.051 \times 0.051 \times 0.051 + 0.041 \times 0.041 \times 0.041}{0.051 \times 0.051 - 0.051 \times 0.041 + 0.041 \times 0.041}$ का

मान है—

- (a) 0.92
(c) 0.0092
(d) 0.00092

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2005, 2007, 2009

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005,

2006, 2008, 2010

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2008, 2010, 2012

उत्तर—(b)

व्याख्या— माना $a = 0.051$ तथा $b = 0.041$

तब,

$$\begin{aligned} &\text{व्यंजक } \frac{a^3 + b^3}{a^2 - ab + b^2} \\ &= \frac{(a+b)(a^2 - ab + b^2)}{(a^2 - ab + b^2)} \\ &= a+b \\ &= 0.051 + 0.041 \Rightarrow 0.092 \end{aligned}$$

224. $\left(x + \frac{1}{x} \right) \left(x - \frac{1}{x} \right) \left(x^2 + \frac{1}{x^2} - 1 \right) \left(x^2 + \frac{1}{x^2} + 1 \right)$

बराबर होगा—

- (a) $x^6 + \frac{1}{x^6}$
(b) $x^8 + \frac{1}{x^8}$
(c) $x^8 - \frac{1}{x^8}$
(d) $x^6 - \frac{1}{x^6}$

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2006

उत्तर—(d)

व्याख्या—

$$\begin{aligned} &\left(x + \frac{1}{x} \right) \left(x - \frac{1}{x} \right) \left(x^2 + \frac{1}{x^2} - 1 \right) \left(x^2 + \frac{1}{x^2} + 1 \right) \\ &= \left(x^2 - \frac{1}{x^2} \right) \left[\left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right)^2 - (1)^2 \right] \\ &= \left(x^2 - \frac{1}{x^2} \right) \left[x^4 + 2x^2 \times \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^4} - 1 \right] \\ &= \left(x^2 - \frac{1}{x^2} \right) \left(x^4 + \frac{1}{x^4} + 1 \right) \\ &= x^6 + x^2 \times \frac{1}{x^4} + x^2 - \frac{1}{x^2} \times x^4 - \frac{1}{x^2} \times \frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^2} \\ &= x^6 + \frac{1}{x^2} + x^2 - x^2 - \frac{1}{x^6} - \frac{1}{x^2} \\ &= x^6 - \frac{1}{x^6} \end{aligned}$$

244. यदि $x+y+z=0$ हो, तो $\frac{x^2}{yz} + \frac{y^2}{zx} + \frac{z^2}{xy}$ का मान क्या होगा?

- (a) $(xyz)^2$ (b) $x^2 + y^2 + z^2$
 (c) 9 (d) 3

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011
 उत्तर-(d)

$$\text{व्याख्या} - \frac{x^2}{yz} + \frac{y^2}{zx} + \frac{z^2}{xy} = \frac{x^3 + y^3 + z^3}{xyz}$$

परंतु यदि $x+y+z=0$,
 तब $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$

$$= \frac{3xyz}{xyz} \Rightarrow 3$$

245. यदि $x=a(b-c)$, $y=b(c-a)$, $z=c(a-b)$ है, तो

$$\left(\frac{x}{a}\right)^3 + \left(\frac{y}{b}\right)^3 + \left(\frac{z}{c}\right)^3 \text{ का मान है}-$$

- (a) $\frac{xyz}{abc}$ (b) 0
 (c) $\frac{3xyz}{abc}$ (d) $\frac{2xyz}{abc}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015
 उत्तर-(c)

$$\text{व्याख्या} - x=a(b-c) \text{ या } \frac{x}{a}=(b-c)$$

$$y=b(c-a) \text{ या } \frac{y}{b}=(c-a)$$

$$z=c(a-b) \text{ या } \frac{z}{c}=(a-b)$$

$$\therefore \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = b-c+c-a+a-b = 0$$

$\therefore a+b+c=0$, तो $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 0$

$$\therefore \left(\frac{x}{a}\right)^3 + \left(\frac{y}{b}\right)^3 + \left(\frac{z}{c}\right)^3 - 3\frac{x}{a}\frac{y}{b}\frac{z}{c} = 0$$

$$\left(\frac{x}{a}\right)^3 + \left(\frac{y}{b}\right)^3 + \left(\frac{z}{c}\right)^3 = \frac{3xyz}{abc}$$

246. यदि $(2a-1)^2 + (4b-3)^2 + (4c+5)^2 = 0$, तो

$$\frac{a^3 + b^3 + c^3 - 3abc}{a^2 + b^2 + c^2} \text{ का मान क्या होगा?}$$

- (a) $1\frac{3}{8}$ (b) $3\frac{3}{8}$
 (c) $2\frac{3}{8}$ (d) 0

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर-(d)

व्याख्या— $\therefore (2a-1)^2 + (4b-3)^2 + (4c+5)^2 = 0$

यदि संख्याओं के वर्गों का योग शून्य के बराबर हो, तो संख्याएं अलग-अलग शून्य के बराबर होंगी अर्थात्

$$(2a-1)^2 = 0 \text{ या } 2a-1 = 0 \text{ या } a = \frac{1}{2}$$

$$(4b-3)^2 = 0 \text{ या } 4b-3 = 0 \text{ या } b = \frac{3}{4}$$

$$(4c+5)^2 = 0 \text{ या } 4c+5 = 0 \text{ या } c = -\frac{5}{4}$$

$$\begin{aligned} \therefore a+b+c &= \frac{1}{2} + \frac{3}{4} - \frac{5}{4} \\ &= \frac{2}{4} + \frac{3}{4} - \frac{5}{4} \\ &= \frac{5}{4} - \frac{5}{4} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\therefore a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 0$$

$$\therefore \frac{a^3 + b^3 + c^3 - 3abc}{a^2 + b^2 + c^2} = \frac{0}{a^2 + b^2 + c^2} \Rightarrow 0$$

247. यदि $x+y+z=6$ और $xy+yz+zx=10$, तो $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ का मान क्या होगा?

- (a) 48 (b) 40
 (c) 42 (d) 36

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015
 उत्तर-(d)

व्याख्या— ∵ प्रश्न से

$$x+y+z=6$$

$$xy+yz+zx=10$$

वर्ग करने पर $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx = 36$

$$\therefore x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx) = 36$$

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2 \times 10 = 36$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 36 - 20 = 16 \quad \dots\dots\dots (i)$$

$$\begin{aligned} \therefore x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz &= (x+y+z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) \\ &= (x+y+z)[x^2 + y^2 + z^2 - (xy + yz + zx)] \\ &= 6[16 - 10] \\ &= 6 \times 6 \Rightarrow 36 \end{aligned}$$

248. यदि $a+b+c=0$, तो $a^3 + b^3 + c^3$ का मान ज्ञात कीजिए?

- (a) abc (b) 2abc
 (c) 3abc (d) 0

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 11 सितंबर, 2016 (II-पार्टी)

उत्तर-(c)

व्याख्या— ∵ $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)$

$$[a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca]$$

दिया है $a+b+c=0$

$$\therefore a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 0 [a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca]$$

$$= 0$$

$$\text{या } a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$$

प्रकार-5

विविध

254. $(x^2 - 8x + 15) = 0$ तथा $(y^2 + 2y - 35) = 0$ के सामान्य शून्यक

- के घन तथा वर्ग के बीच का अंतर क्या होगा?
- (a) 76
 - (b) 100
 - (c) 294
 - (d) 318

S.S.C. ऑफिसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 5 अगस्त, 2017 (III-पार्टी)
उत्तर-(b)

व्याख्या— समीकरण $x^2 - 8x + 15 = 0$

$$x^2 - 3x - 5x + 15 = 0$$

$$x(x-3) - 5(x-3) = 0$$

$$(x-3)(x-5) = 0$$

$$\therefore x = 5, 3$$

तथा समीकरण, $y^2 + 2y - 35 = 0$

$$y^2 + 7y - 5y - 35 = 0$$

$$y(y+7) - 5(y-7) = 0$$

$$(y+7)(y-5) = 0$$

$$\therefore y = 5, -7$$

अतः दोनों समीकरण का सामान्य शून्यक (Common Root) 5 है।

$$\therefore \text{सामान्य शून्यक के घन तथा वर्ग के बीच अंतर} = (5)^3 - (5)^2 \\ = 125 - 25 \\ = 100$$

255. व्यंजक $x^2 + \left(\frac{1}{x^2}\right) - 6$ के गुणनखंडों का अंतर क्या है?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 4

S.S.C. ऑफिसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 5 अगस्त, 2017 (3-पार्टी)

उत्तर-(d)

व्याख्या— व्यंजक $x^2 + \frac{1}{x^2} - 6$ का गुणनखंड,

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{1}{x^2} - 6 &= \left(x^2 + \frac{1}{x^2} - 2\right) - 4 \\ &= \left(x^2 + \frac{1}{x^2} - 2 \times x \times \frac{1}{x}\right) - 2^2 \\ &= \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 - 2^2 \\ &= \left(x - \frac{1}{x} - 2\right)\left(x - \frac{1}{x} + 2\right) \\ \therefore \text{गुणनखंडों का अंतर} &= \left(x - \frac{1}{x} + 2\right) - \left(x - \frac{1}{x} - 2\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= x - \frac{1}{x} + 2 - x + \frac{1}{x} + 2 \\ &= 4 \end{aligned}$$

256. $\frac{(x^2 - 5x + 6)}{(x^2 - 3x + 2)} \div \frac{(x^2 - 7x + 12)}{(x^2 - 5x + 4)}$ का मान क्या है?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) $\frac{(x-2)}{(x-1)}$
- (d) $\frac{(x+3)}{(x+1)}$

S.S.C. ऑफिसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (II-पार्टी)

उत्तर-(a)

व्याख्या— $\frac{(x^2 - 5x + 6)}{(x^2 - 3x + 2)} \div \frac{(x^2 - 7x + 12)}{(x^2 - 5x + 4)}$

$$= \frac{(x-2)(x-3)}{(x-1)(x-2)} \times \frac{(x-4)(x-1)}{(x-3)(x-4)} \Rightarrow 1$$

257. यदि α तथा β समीकरण $x^2 - x + 3 = 0$ के मूल हैं, तो $\alpha^4 + \beta^4$ का मान क्या होगा?

- (a) 7
- (b) 9
- (c) 11
- (d) 13

S.S.C. ऑफिसलाइन C.P.O. 1 जुलाई, 2017 (II-पार्टी)

उत्तर-(a)

व्याख्या— यदि α तथा β समी. $x^2 - x + 3 = 0$ के मूल हैं तब $\alpha^4 + \beta^4 = ?$

यदि α तथा β समी. के मूल हैं तब, $\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = 1$ तथा

$$\alpha \cdot \beta = \frac{c}{a} = 3$$

$$(\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha \cdot \beta \quad [\alpha + \beta = 1, \alpha \cdot \beta = 3]$$

$$(1)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + 2 \times 3$$

$$1 - 6 = \alpha^2 + \beta^2$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = -5$$

पुनः

$$(\alpha^2 + \beta^2)^2 = \alpha^4 + \beta^4 + 2\alpha^2 \cdot \beta^2$$

$$(-5)^2 = \alpha^4 + \beta^4 + 2 \times 9 \quad [\because \alpha \cdot \beta = -3]$$

$$\therefore \alpha^4 + \beta^4 = 25 - 18 \Rightarrow 7$$

258. यदि $\sqrt{1 + \frac{x}{144}} = \frac{13}{12}$, तो x किसके बराबर होगा?

- (a) 1
- (b) 13
- (c) 27
- (d) 25

S.S.C. ऑफिसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 6 सितंबर, 2016 (I, III-पार्टी)

उत्तर-(d)

व्याख्या— दिया है— $\sqrt{1 + \frac{x}{144}} = \frac{13}{12}$

$$\text{या } \sqrt{\frac{144+x}{144}} = \frac{13}{12}$$

दोनों पक्षों का वर्ग करने पर

$$144+x = 169$$

$$\text{या } x = 169 - 144 \Rightarrow 25$$

Trick—

दिए गए विकल्पों में से 1, 13, 27 क्रमशः रखने पर फलन संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन 25 रखने पर बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ जाता है। अर्थात्

$$\sqrt{1 + \frac{25}{144}} = \frac{13}{12}$$

$$\text{या } \sqrt{\frac{169}{144}} = \frac{13}{12}$$

$$\text{या } \frac{13}{12} = \frac{13}{12}$$

259. यदि $x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx$, तो $\frac{(7x+3y-5z)}{5x}$ का

मान क्या होगा?

- | | |
|-------|--------------------|
| (a) 0 | (b) 1 |
| (c) 5 | (d) $\frac{33}{5}$ |

S.S.C. ऑफिसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 12 अगस्त, 2017 (I-पारी)

उत्तर—(b)

व्याख्या— $x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx$

$$2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2xy - 2yz - 2zx = 0$$

(2 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर)

$$\Rightarrow (x^2 + y^2 - 2xy) + (y^2 + z^2 - 2yz) + (z^2 + x^2 - 2zx) = 0$$

$$\Rightarrow (x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2 = 0$$

यह तभी संभव है जब $x-y=0$, $y-z=0$ तथा $z-x=0$

$$\Rightarrow x=y=z \quad \dots\text{(i)}$$

$$\therefore \frac{7x+3y-5z}{5z} = \frac{7x+3x-5x}{5x} \quad [\text{समी. (i)}]$$

$$= \frac{10x-5x}{5x} = \frac{5x}{5x} \Rightarrow 1$$

260. $5 + 20x - 4x^2$ का अधिकतम मान जब 'x' वास्तविक संख्या (रिअल नंबर) हो, तो क्या होगा?

- | | |
|--------|--------|
| (a) 1 | (b) 5 |
| (c) 25 | (d) 30 |

S.S.C. ऑफिसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 4 सितंबर, 2016 (II-पारी)

उत्तर—(d)

व्याख्या— माना कि $f(x) = 5 + 20x - 4x^2$

$f(x)$ को x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{d}{dx} f(x) = 20 - 8x$$

अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए $\frac{d}{dx} f(x) = 0$

$$\text{या } 20 - 8x = 0 \text{ या } x = \frac{20}{8} \Rightarrow \frac{5}{2}$$

$f(x)$ के अधिकतम मान के लिए $\frac{d^2f(x)}{dx^2} < 0$ होना चाहिए।

$$\therefore \frac{d^2f(x)}{dx^2} = -8 < 0$$

$\therefore f(x), x = \frac{5}{2}$ पर अधिकतम मान प्राप्त करेगा।

$$\therefore f(x) \text{ का अधिकतम मान } \left(x = \frac{5}{2} \right)$$

$$= 5 + 20 \times \frac{5}{2} - 4 \times \left(\frac{5}{2} \right)^2$$

$$= 5 + 10 \times 5 - 25 \\ = 5 + 50 - 25 \Rightarrow 30$$

Trick—

नोट : $ax^2 + bx + c$ का न्यूनतम मान = $\frac{4ac - b^2}{4a}$

या $-(ax^2 - bx - c)$ का अधिकतम मान = $\frac{b^2 - 4ac}{4a}$

$$\therefore 5 + 20x - 4x^2 \text{ का अधिकतम मान} = \frac{(-20)^2 - 4 \times 4 \times (-5)}{4 \times (-4)}$$

$$-(4x^2 - 20x - 5) \text{ का अधिकतम मान} = \frac{400 + 80}{16} = \frac{480}{16} = 30$$

261. यदि $a+b+c=-11$ है, तो $(a+4)^3 + (b+5)^3 + (c+2)^3$

$- 3(a+4)(b+5)(c+2)$ का मान क्या होगा?

- | | |
|-----------|----------|
| (a) -1331 | (b) -121 |
| (c) 0 | (d) 1331 |

S.S.C. ऑफिसलाइन C.P.O. 3 जुलाई, 2017 (II-पारी)

उत्तर—(c)

व्याख्या— ∵ $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$

$$= (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$$

$$= 0 \quad (\text{यदि } a+b+c=0)$$

दिया है ⇒ $a+b+c=-11$

$$\therefore (a+4) + (b+5) + (c+2)$$

$$= a+b+c+11$$

$$= -11 + 11 = 0$$

$$\text{अतः } (a+4)^3 + (b+5)^3 + (c+2)^3 - 3(a+4)(b+5)(c+2) = 0$$

266. यदि $(1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \dots \times n) = \underline{n}$, तो $\underline{14} - \underline{13} - \underline{12}$ किसके बराबर हैं?

- (a) $14 \times 13 \times (\underline{13})$ (b) $13 \times 12 \times (\underline{12})$
 (c) $14 \times 12 \times (\underline{12})$ (d) $14 \times 12 \times (\underline{13})$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर-(c)

व्याख्या— ∵ $\underline{n} = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \dots \times n$
 $\therefore \underline{14} = 14 \times 13 \times \underline{12}$
 $\underline{13} = 13 \times \underline{12}$
 $\underline{12} = \underline{12}$

प्रश्नानुसार

$$\begin{aligned}\underline{14} - \underline{13} - \underline{12} &= 14 \times 13 \times \underline{12} - 13 \times \underline{12} - \underline{12} \\&= \underline{12} \times (14 \times 13 - 13 - 1) \\&= \underline{12} \times (14 \times 13 - 14) \\&= \underline{12} \times (13 - 1) \times 14 \\&= 14 \times 12 \times \underline{12}\end{aligned}$$

267. यदि $\frac{xy}{x+y} = a$, $\frac{xz}{x+z} = b$ तथा $\frac{yz}{y+z} = c$ हों, जहाँ a, b, c

- सभी शून्येतर संख्याएँ हैं, तो x किसके बराबर होगा?
 (a) $\frac{abc}{ab+bc+ac}$ (b) $\frac{2abc}{ab+bc-ac}$
 (c) $\frac{2abc}{ab+ac-bc}$ (d) $\frac{2abc}{ac+bc-ab}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर-(d)

व्याख्या— दिया है-

$$\frac{xy}{x+y} = a \text{ या } \frac{x+y}{xy} = \frac{1}{a} \text{ या } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{a} \quad \dots \dots \dots (i)$$

$$\frac{xz}{x+z} = b \text{ या } \frac{x+z}{xz} = \frac{1}{b} \text{ या } \frac{1}{x} + \frac{1}{z} = \frac{1}{b} \quad \dots \dots \dots (ii)$$

$$\frac{yz}{y+z} = c \text{ या } \frac{y+z}{yz} = \frac{1}{c} \text{ या } \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{c} \quad \dots \dots \dots (iii)$$

समी. (i) और समी. (ii) को जोड़कर समी. (iii) को उससे घटाने पर

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{c} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{x} + \frac{1}{z} - \frac{1}{y} - \frac{1}{z}$$

$$\frac{a+b}{ab} - \frac{1}{c} = \frac{2}{x} \quad \therefore \frac{2}{x} = \frac{ca+bc-ab}{abc}$$

$$\therefore x = \frac{2abc}{ac+bc-ab}$$

268. यदि $\frac{11-13x}{x} + \frac{11-13y}{y} + \frac{11-13z}{z} = 5$, तो $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ का मान क्या है?

(a) 1

(b) $\frac{13}{11}$

(c) $\frac{13}{5}$

(d) 4

S.S.C. ऑफलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 8 अगस्त, 2017 (III-पार्टी)
 उत्तर-(d)

व्याख्या— $\frac{11-13x}{x} + \frac{11-13y}{y} + \frac{11-13z}{z} = 5$
 $\frac{11}{x} - \frac{13x}{x} + \frac{11}{y} - \frac{13y}{y} + \frac{11}{z} - \frac{13z}{z} = 5$
 $\frac{11}{x} + \frac{11}{y} + \frac{11}{z} = 5 + 13 + 13 + 13$
 $11\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right) = 44$
 $\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{44}{11} = 4$

269. यदि $a^2 = b + c$, $b^2 = c + a$, $c^2 = a + b$ तो,

$$3\left(\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} + \frac{1}{c+1}\right)$$

(a) 1

(b) $\frac{1}{3}$

(c) 3

(d) 4

S.S.C. ऑफलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 6 सितंबर, 2016 (III-पार्टी)

S.S.C. ऑफलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 6 सितंबर, 2016 (I-पार्टी)

उत्तर-(c)

व्याख्या— दिया है $a^2 = b + c$,

या $a^2 + a = b + c + a$

या $a(a+1) = b + c + a$

$$\text{या } \frac{1}{a+1} = \frac{a}{a+b+c}$$

$$\text{इसी प्रकार } \frac{1}{b+1} = \frac{b}{a+b+c}$$

$$\text{और } \frac{1}{c+1} = \frac{c}{a+b+c}$$

$$\therefore 3\left(\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} + \frac{1}{c+1}\right)$$

$$= 3\left(\frac{a}{a+b+c} + \frac{b}{a+b+c} + \frac{c}{a+b+c}\right)$$

$$= 3 \times \frac{(a+b+c)}{(a+b+c)} = 3 \times 1$$

$$= 3$$

Trick—

माना $a = b = c = 2$

तब $a^2 = b + c$

$$2^2 = 2 + 2$$

$$4 = 4$$

$$\therefore 3\left[\frac{1}{1+a} + \frac{1}{b+1} + \frac{1}{c+1}\right] = 3\left[\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\right] = 3$$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

व्याख्या— $\because x(x+y+z) = 20$
 $y(x+y+z) = 30$
 $z(x+y+z) = 50$

जोड़ने पर

$$x(x+y+z) + y(x+y+z) + z(x+y+z)$$

$$= 20 + 30 + 50$$

$$(x+y+z)(x+y+z) = 100$$

$$(x+y+z)^2 = 100$$

$$(x+y+z) = \sqrt{100}$$

$$(x+y+z) = 10$$

दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर

$$2(x+y+z) = 10 \times 2 \Rightarrow 20$$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015
S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$$\begin{aligned} \text{व्याख्या— } & \text{विकल्प (a) से } m \text{ का मान लेकर हल करने पर} \\ & \frac{m-a^2}{b^2+c^2} + \frac{m-b^2}{c^2+a^2} + \frac{m-c^2}{a^2+b^2} = 3 \\ \therefore & \frac{a^2+b^2+c^2-a^2}{b^2+c^2} + \frac{a^2+b^2+c^2-b^2}{c^2+a^2} + \frac{a^2+b^2+c^2-c^2}{a^2+b^2} = 3 \\ \therefore & \frac{b^2+c^2}{b^2+c^2} + \frac{c^2+a^2}{c^2+a^2} + \frac{a^2+b^2}{a^2+b^2} = 3 \\ & 1+1+1=3 \\ & 3=3 \end{aligned}$$

अतः विकल्प (a) प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है।

Trick-

$$\begin{aligned} \frac{m-a^2}{b^2+c^2} + \frac{m-b^2}{c^2+a^2} + \frac{m-c^2}{a^2+b^2} &= 3 \\ \therefore \frac{m}{b^2+c^2} - \frac{a^2}{b^2+c^2} + \frac{m}{c^2+a^2} - \frac{b^2}{c^2+a^2} + \frac{m}{a^2+b^2} - \frac{c^2}{a^2+b^2} &= 3 \\ \therefore \frac{m}{b^2+c^2} + \frac{m}{c^2+a^2} + \frac{m}{a^2+b^2} &= 3 + \frac{a^2}{b^2+c^2} + \frac{b^2}{c^2+a^2} + \frac{c^2}{a^2+b^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 m &= \frac{1}{b^2+c^2} + \frac{1}{c^2+a^2} + \frac{1}{a^2+b^2} = \frac{a^2}{b^2+c^2} + 1 + \frac{b^2}{c^2+a^2} + 1 + \frac{c^2}{a^2+b^2} + 1 \\
 &= \frac{a^2+b^2+c^2}{b^2+c^2} + \frac{b^2+c^2+a^2}{c^2+a^2} + \frac{c^2+a^2+b^2}{a^2+b^2} \\
 &= a^2 + b^2 + c^2 \left(\frac{1}{b^2+c^2} + \frac{1}{c^2+a^2} + \frac{1}{a^2+b^2} \right) \\
 \therefore m &= a^2 + b^2 + c^2
 \end{aligned}$$

Trick-

$$\frac{m-a^2}{b^2+c^2} + \frac{m-b^2}{c^2+a^2} + \frac{m-c^2}{a^2+b^2} = 3$$

माना $a = b = c = 1$ तब

$$\frac{m-1^2}{1^2+1^2} + \frac{m-1^2}{1^2+1^2} + \frac{m-1^2}{1^2+1^2} = 3$$

$$m-1 + m-1 + m-1 = 6$$

$$3m = 9$$

$$m = 3$$

$$a^2 + b^2 + c^2 = (1)^2 + (1)^2 + (1)^2 = 3$$

$$\therefore m \equiv a^2 + b^2 + c^2$$

(c) 5 (d) 7
S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

-(b)

10 of 10

$$(x+1)^3 - (x-1)^3 =$$

व्याख्या—

$$\frac{[(x+1) - (x-1)][(x+1)^2 + (x-1)^2 + (x+1)(x-1)]}{[(x+1) - (x-1)][x+1+x-1]} = \frac{2[(x+1)^2 + (x-1)^2 + x^2 - 1]}{2 \times 2x} = 2$$

$$\frac{x^2 + 1 + 2x + x^2 + 1 - 2x + x^2 - 1}{2x} = 2$$

$$\begin{aligned}3x^2 + 1 &= 4x \\3x^2 - 4x + 1 &= 0 \\3x^2 - 3x - x + 1 &= 0 \\3x(x-1) - 1(x-1) &= 0 \\(3x-1)(x-1) &= 0\end{aligned}$$

$$\therefore x = 1 \text{ या } \frac{1}{3}$$

मात्रा द्विगुण (१) अर्थी यह है।

283. अनुक्रम $\frac{1}{n}, \frac{n+1}{n}, \frac{2n+1}{n}, \dots\dots\dots$ का n वां पद होगा-

(a) $\frac{n^2+1}{n}$
(c) $n+1$

(b) $\frac{n^2-n+1}{n}$
(d) 2

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2007

उत्तर-(b)

व्याख्या—प्रथम पद $a = \frac{1}{n}$,

सर्वान्तर $d = \frac{n+1}{n} - \frac{1}{n} = \frac{n+1-1}{n} = \frac{n}{n} = 1$

$\therefore n$ वां पद $= a + (n-1).d$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{n} + (n-1).1 \\ &= \frac{1+n^2-n}{n} \\ &= \frac{n^2-n+1}{n} \end{aligned}$$

284. $\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right)\left(x^8 + \frac{1}{x^8}\right)\left(x^{16} + \frac{1}{x^{16}}\right)$

का सरलीकृत मान क्या है?

(a) $\frac{x^{64} - \frac{1}{x^{64}}}{x - \frac{1}{x}}$

(b) $\frac{x^8 - \frac{1}{x^8}}{x - \frac{1}{x}}$

(c) $\frac{x^{16} - \frac{1}{x^{16}}}{x - \frac{1}{x}}$

(d) $\frac{x^{32} - \frac{1}{x^{32}}}{x - \frac{1}{x}}$

S.S.C. ऑनलाइन CPO SI (T-I) 5 जुलाई, 2017 (II-पाली)

उत्तर-(d)

व्याख्या— $\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right)\left(x^8 + \frac{1}{x^8}\right)\left(x^{16} + \frac{1}{x^{16}}\right)$
 $= \frac{\left(x - \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right)\left(x^8 + \frac{1}{x^8}\right)\left(x^{16} + \frac{1}{x^{16}}\right)}{\left(x - \frac{1}{x}\right)}$

$[\because a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)]$

$(\because \text{अंश तथा हर में } x - \frac{1}{x} \text{ से गुणा करने पर})$

$$= \frac{\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right)\left(x^8 + \frac{1}{x^8}\right)\left(x^{16} + \frac{1}{x^{16}}\right)}{\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\left(x^4 - \frac{1}{x^4}\right)\left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right)\left(x^8 + \frac{1}{x^8}\right)\left(x^{16} + \frac{1}{x^{16}}\right)}{\left(x - \frac{1}{x}\right)} \\ &= \frac{\left(x^8 - \frac{1}{x^8}\right)\left(x^8 + \frac{1}{x^8}\right)\left(x^{16} + \frac{1}{x^{16}}\right)}{\left(x - \frac{1}{x}\right)} \\ &= \frac{\left(x^{16} - \frac{1}{x^{16}}\right)\left(x^{16} + \frac{1}{x^{16}}\right)}{\left(x - \frac{1}{x}\right)} \\ &= \frac{x^{32} - \frac{1}{x^{32}}}{\left(x - \frac{1}{x}\right)} \end{aligned}$$

285. यदि $u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ है, तो $u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5$ का मान है-

(a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{2}{5}$ (d) $\frac{5}{6}$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकंडरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2014

उत्तर-(d)

व्याख्या— $u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$
 $u_1 = \frac{1}{1} - \frac{1}{(1+1)} \Rightarrow 1 - \frac{1}{2}$
 $u_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{(2+1)} \Rightarrow \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$
 $u_3 = \frac{1}{3} - \frac{1}{(3+1)} \Rightarrow \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$
 $u_4 = \frac{1}{4} - \frac{1}{(4+1)} \Rightarrow \frac{1}{4} - \frac{1}{5}$
 $u_5 = \frac{1}{5} - \frac{1}{(5+1)} \Rightarrow \frac{1}{5} - \frac{1}{6}$

प्रश्नानुसार

$$\begin{aligned} &u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5 \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} \\ &= 1 - \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{5}{6} \end{aligned}$$

286. श्रेणी $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} \dots\dots$ के n पदों का योग है—

(a) $\frac{2^n - 1}{2^{n-1}}$ (b) $\frac{2^{n-1} - 1}{2^{n-3}}$

(c) $2 - 2^n$ (d) $\frac{2^n - 1}{2^n}$

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2008

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2000, 2008

उत्तर-(a)

व्याख्या— पहला पद $a = 1$

$$\text{सर्वांतर } r = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore S_n &= \frac{a(1-r^n)}{1-r} \quad \{:: r < 1\} \\ &= \frac{1}{1-\left(\frac{1}{2}\right)^n} \\ &= \frac{1-\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2^n}} \\ &= \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2^n-1}{2^n}} \\ &= 2 \left[\frac{2^n-1}{2^n} \right] \\ &= \frac{2^n-1}{2^{n-1}} \end{aligned}$$

287. यदि अनुक्रम $a, a-b, a-2b, a-3b, \dots$ तथा 10 वां पद 20 तथा 20 वां पद 10 हो, तो इसका x वां पद क्या होगा?

- (a) $10-x$
- (b) $20-x$
- (c) $29-x$
- (d) $30-x$

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2006

उत्तर—(d)

व्याख्या— प्रश्न के अनुसार

$$t_{10} = a + (10-1) \times (-b)$$

$$a - 9b = 20 \quad \dots(i)$$

$$\text{और } t_{20} = a + (20-1) \times (-b)$$

$$a - 19b = 10 \quad \dots(ii)$$

समी. (i) और (ii) से—

$$b = 1 \text{ तथा } a = 29$$

$$t_x = a + (x-1) \times (-b)$$

$$= 29 - x + 1$$

$$= 30 - x$$

288. अनुक्रम $7, 10, 13, \dots$ का कौन-सा पद 151 है?

- (a) 29 वां
- (b) 19 वां
- (c) 59 वां
- (d) 49 वां

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2004

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2008

उत्तर—(d)

व्याख्या— प्रथम पद $a = 7$

सर्वांतर $d = 3$

$$t_n = 151$$

$$\begin{aligned} \therefore 151 &= 7 + (n-1) \times 3 \\ 151 - 7 &= 3n - 3 \\ 3n &= 151 - 7 + 3 \\ 3n &= 147 \\ n &= 49 \end{aligned}$$

289. अनुक्रम $6, 13, 20, 27, \dots$ का कौन-सा पद इसके 24 वें पद से 98 अधिक होगा?

- (a) 36 वां
- (b) 38 वां
- (c) 35 वां
- (d) 48 वां

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2008

उत्तर—(b)

$$\begin{aligned} \text{व्याख्या—} \quad \text{अनुक्रम } 6, 13, 20, 27 \text{ का } 24 \text{ वां पद} \\ &= a + (n-1)d \quad (\text{सूत्र}) \\ &= 6 + (24-1)7 \\ &= 167 \end{aligned}$$

प्रश्नानुसार,

$$167 + 98 = 265$$

$$265 = 6 + (n-1)7$$

$$265 = 6 + 7n - 7$$

$$7n = 266$$

$$n = \frac{266}{7} \Rightarrow 38 \text{ वां पद}$$

290. यदि $1^3 + 2^3 + \dots + 10^3 = 3025$ हो, तो $4 + 32 + 108 + \dots + 4000$ बराबर है —

- (a) 12000
- (b) 12100
- (c) 122000
- (d) 12400

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2011

उत्तर—(b)

$$\begin{aligned} \text{व्याख्या—} \quad \therefore 4 + 32 + 108 + \dots + 4000 \\ &= 4(1 + 8 + 27 + \dots + 1000) \\ &= 4(1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 10^3) \\ &= 4 \times 3025 \\ &= 12100 \end{aligned}$$

291. $101 + 102 + 103 + \dots + 200$ का योग क्या होगा?

- (a) 15000
- (b) 15025
- (c) 15050
- (d) 25000

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2000, 2002, 2005, 2006

उत्तर—(c)

व्याख्या— $\frac{a+b+c}{3} \geq 3\sqrt[3]{abc}$

$$\Rightarrow \frac{9}{3} \geq (abc)^{1/3} \Rightarrow (abc)^{1/3} \leq 3 \quad \dots\dots(i)$$

पुनः $\frac{a^2+b^2+c^2}{3} \geq (a^2b^2c^2)^{1/3}$

$$\Rightarrow \frac{a^2+b^2+c^2}{3} \geq (abc)^{2/3}$$

$$\Rightarrow \frac{a^2+b^2+c^2}{3} \geq (3)^2 \quad (\text{समी. (i) से})$$

$$\Rightarrow a^2+b^2+c^2 \geq 27$$

अतः $(a^2+b^2+c^2)$ का न्यूनतम मान = 27

297. $\left(b \times \frac{1}{a}\right)$ में किससे गुणा किया जाए, ताकि गुणनफल $\left(b + \frac{1}{a}\right)$ प्राप्त हो?

(a) $a + \frac{1}{b}$

(b) $b + \frac{1}{a}$

(c) $\frac{a}{b}$

(d) ab

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

व्याख्या— माना $b \times \frac{1}{a}$ में x से गुणा करने पर गुणनफल $\left(b + \frac{1}{a}\right)$

प्राप्त होगा।

प्रश्नानुसार

$$x \times \frac{b}{a} = b + \frac{1}{a}$$

$$x \times \frac{b}{a} = \frac{ab+1}{a}$$

$$\therefore x = \frac{ab+1}{b}$$

$$\text{अतः } x = a + \frac{1}{b}$$

298. एक समांतर श्रेणी का तीसरा और आठवां पद क्रमशः -14 और 1 है। 11वां पद कौन-सा है?

(a) 14

(b) 16

(c) 20

(d) 10

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 22 अगस्त, 2017 (III-प्रती)

उत्तर—(d)

व्याख्या— समांतर श्रेणी का n वां पद $(T_n) = a + (n-1)d$ (सूत्र)

(जहां a = प्रथम पद तथा d = सार्वअंतर है)

$$\therefore T_3 = a + (3-1)d$$

$$-14 = a + 2d \quad \dots\dots(i)$$

$$\text{तथा } T_8 = a + (8-1)d$$

$$1 = a + 7d \quad \dots\dots(ii)$$

समी. (ii) में से समी. (i) घटाने पर

$$5d = 15$$

$$\therefore d = \frac{15}{5} \Rightarrow 3$$

सार्वतर (d) का मान समी. (i) में रखने पर

$$-14 = a + 2 \times 3$$

$$\therefore a = -14 - 6 \Rightarrow -20$$

इस प्रकार समांतर श्रेणी का 11वां पद $(T_{11}) = a + (n-1)d$ (सूत्र)

$$= -20 + (11-1)3$$

$$\therefore T_{11} = -20 + 30 \Rightarrow 10$$

299. समांतर श्रेणी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः -8 और 10 है।

16वां पद क्या है?

(a) 34

(b) 28

(c) 25

(d) 31

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 17 अगस्त, 2017 (I-प्रती)

उत्तर—(d)

व्याख्या— $T_3 = a + 2d = -8 \quad \dots\dots(i)$

$T_9 = a + 8d = 10 \quad \dots\dots(ii)$

समी. (ii) में से समी. (i) को घटाने पर

$$(a + 8d) - (a + 2d) = 10 - (-8)$$

$$6d = 18$$

$$d = 3$$

d का मान समी. (i) में रखने पर

$$a + 2 \times 3 = -8$$

$$a + 6 = -8$$

$$a = -8 - 6$$

$$a = -14$$

$$T_{16} = a + 15d$$

$$= -14 + 15 \times 3$$

$$= -14 + 45$$

$$= 31$$

